

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

EPFO का बड़ा फैसला : इसी महीने PF खातों में आएगा 8.25% ब्याज, 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Sanket Morankar

Published on 18 Jun 2026



देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित **8.25 प्रतिशत ब्याज दर** को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद देशभर के **7 करोड़ से अधिक PF खाताधारकों** के खातों में इसी महीने ब्याज की राशि जमा होने की संभावना है।

सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ब्याज की राशि सीधे सदस्यों के खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी दीर्घकालिक बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

वित्त मंत्रालय ने दी अंतिम मंजूरी

EPFO द्वारा तय की गई ब्याज दर को लागू करने से पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होती है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना का अंतिम गारंटर भारत सरकार होती है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था **केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT)** द्वारा तय की गई 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद श्रम मंत्रालय के निर्देश पर EPFO इसी महीने ब्याज की राशि खातों में जमा करना शुरू कर सकता है।

लगातार तीसरे वर्ष 8.25 प्रतिशत ब्याज

इससे पहले **2 मार्च 2026** को केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री **मनसुख मंडाविया** की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई थी।

यह लगातार तीसरा वर्ष है जब EPFO ने ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इससे पहले भी वर्ष 2024-25 और

2023-24 में कर्मचारियों को इसी दर से ब्याज दिया गया था ।

नई व्यवस्था से जल्द मिलेगा ब्याज

EPFO ने हाल के वर्षों में अपनी डिजिटल प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया है । नए तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए अब ब्याज की राशि पहले की तुलना में अधिक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ सीधे सदस्यों के खातों में जमा की जाएगी ।

नई व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और खाते में ब्याज अपडेट होने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी ।

करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े करोड़ों कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा PF खाते में जमा करते हैं । इस राशि पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज कर्मचारियों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है ।

सरकार की मंजूरी के बाद लगभग **7 करोड़ से अधिक EPFO सदस्य** इस फैसले का लाभ उठाएंगे । जिन कर्मचारियों के PF खाते सक्रिय हैं, उनके खातों में ब्याज स्वतः जमा किया जाएगा । इसके लिए किसी प्रकार का अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

पिछले वर्षों में कैसी रही ब्याज दर ?

EPFO की ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहा है ।

- वित्त वर्ष 2025-26 : **8.25%**
- वित्त वर्ष 2024-25 : **8.25%**
- वित्त वर्ष 2023-24 : **8.25%**
- वित्त वर्ष 2022-23 : **8.15%**
- वित्त वर्ष 2021-22 : **8.10%** (चार दशक का सबसे निचला स्तर)
- वित्त वर्ष 2020-21 : **8.50%**
- वित्त वर्ष 2019-20 : **8.50%**
- वित्त वर्ष 2018-19 : **8.65%**
- वित्त वर्ष 2017-18 : **8.55%**
- वित्त वर्ष 2016-17 : **8.65%**
- वित्त वर्ष 2015-16 : **8.80%**

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दर स्थिर बनी हुई है, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का लाभ मिलता रहा है ।

कर्मचारियों की बचत होगी और मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए संतोषजनक मानी जा सकती है । EPFO देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जहां कर्मचारियों को नियमित बचत के साथ आकर्षक ब्याज का लाभ भी मिलता है ।

सरकार की मंजूरी के बाद अब करोड़ों कर्मचारियों को अपने PF खाते में ब्याज की राशि का इंतजार है, जो इसी महीने उनके खातों में दिखाई दे सकती है । यह फैसला कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।